

प्रेषक,

ज्योति कुमार त्रिपाठी,  
पीठासीन अधिकारी,  
भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,  
वाराणसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।


महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा वर्ष 2018-19 व 2019-20 का प्रापटी स्टेटमेंट विहित प्रारूप में अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण 22 मार्च, 2020 से न्यायालय लगातार बंद था और उसके पश्चात मेरा स्थानान्तरण 18 मार्च, 2020 में पीठासीन अधिकारी, मोटर व्हीकल क्लेम्स ट्रिब्यूनल, सोनभद्र में हो गया था। कोविड-19 के कारण 05 मई, 2020 को सोनभद्र में पदभार ग्रहण किया, किन्तु न्यायालय के लगातार बंद होने के कारण सुचारू रूप से कार्य जून 2020 से प्रारम्भ हुआ। मानवीय भूलवश प्रापटी स्टेटमेंट प्रस्तुत करने से रह गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रापटी स्टेटमेंट मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए क्षमा प्रार्थी है।

"सादर"

भवदीय,

  
10.12.2021

( ज्योति कुमार त्रिपाठी )

पीठासीन अधिकारी,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,  
वाराणसी।